

# संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 28-11-2021

आज दिनांक 28.11.2021 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री राजेश मोदक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

**शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार**

- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

## पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 2545 द्वारा मारपीट / विवाद को दौरान घायल महिला को पहुंचाया गया अस्पताल –**

पीआरवी 2545 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत नेहिया खुर्द से इवेन्ट संख्या 10132 से मारपीट / विवाद होने से एक महिला ( प्रभा पुत्री चन्द्रभान निवासी ग्राम नेहियाखुर्द जनपद संतकबीरनगर ) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल महिला पीआरवी वाहन से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल हुई महिला को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

**पीआरवी स्टाफ –** आ0 अरविन्द तिवारी, म0आ0 सीमा यादव, म0आ0 ममता यादव, हो0चा0 सुनील पाण्डेय ।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 109 वाहनो से 87500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**

आज दिनांक 28.11.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 109 वाहनो से 87500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।